

प्रेस नोट दिनांक 20.12.2020
थाना इज्जतनगर जनपद बरेली ।

थाना इज्जतनगर #bareillypolice द्वारा लूट करने वाले अभियुक्तों को किया गिरफ्तार तथा कब्जे से अवैध तमन्चा व लूटी गयी सम्पूर्ण बरामदगी ।

थाना इज्जतनगर जनपद बरेली क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 18.12.2020 को समय करीब 20.30 बजे ऑटो चालक जितेन्द्र कुमार पुत्र रामचरन लाल निवासी ग्राम चितपुरा थाना इज्जतनगर, बरेली अपने ऑटो से रिठौरा सवारी उताकर अपने घर चितपुरा वापस जा रहा था। रास्ते में कलापुर पुलिया से नहर रोड पर ग्राम आसपुर के पास झीरी धाम आश्रम पर पांच व्यक्ति खड़े मिले और ऑटो रोककर विलयधाम के पास जाने को कहा। जब ऑटो चालक उन व्यक्तियों को बैठाकर आगे चला तो सूनसान स्थान पर उनमें से एक व्यक्ति द्वारा ऑटो चालक के कनपटी पर तमन्चा लगाकर ऑटो रुकवा लिया गया और कहा कि अगर शोर मचाया तो जान से मार देंगे। उनके द्वारा ऑटो चालक से 900 रुपये लूट लिये। ऑटो चालक पहले ऑटो को केसरपुर रोड पर ले गया और वहां से अहलादपुर चौकी के पास पहुंचा तो चौकी पर मौजूद पुलिस को देखकर ऑटो में बैठे व्यक्तियों द्वारा ऑटो चालक को कहा गया कि ऑटो यहां मत रोकना और उनमें से एक व्यक्ति के द्वारा ऑटो का स्टेरिंग पकड़ लिया गया तभी ऑटो चालक द्वारा एकदम से ब्रेक लगाया गया तो ऑटो पलट गया। ऑटो पलटते ही तीन व्यक्ति जिन पर नाजायाज असलहे थे, फायरिंग करते हुए भागने लगे तथा दो व्यक्ति ऑटो के नीचे दब गये। ऑटो चालक द्वारा लूटेरे का शोर मचाये जाने पर वहां खड़े दो होमगार्डों द्वारा भागते लूटेरों का शोर मचाया गया तथा पकड़ने का प्रयास किया गया। शोर सुनकर पुलिस चौकी पर मौजूद **का0 1255 विक्रान्त व HG 718 धर्मपाल व HG 742 पूरनलाल** द्वारा मौके पर पहुंचकर तीन भागते हुए बदमाशों में से एक को पकड़ लिया गया तथा ऑटो के नीचे दबे दो बदमाशों को निकालकर उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया। जहां पर एक बदमाश की मृत्यु हो गयी। शेष अभियुक्तों से पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि ऑटो चालक से लूटपाट करने से पहले उनके द्वारा मोटर साईकिल सवार दो व्यक्तियों से 18,000/-रु० तमन्चे के दम पर लूट लिए गये थे। जितेन्द्र कुमार की तहरीर के आधार पर थाना इज्जतनगर पर मु०अ०सं० 992/2020 धारा 395 भादवि पंजीकृत किया गया। ऑटो चालक जितेन्द्र कुमार की समझदारी पूर्ण किये गया कार्य पर भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बरेली द्वारा ऑटो चालक को **5,000/-रु०** का नगद पुररूष्कार दिया जायेगा। गिरफ्तार अभियुक्तगणों से पूछताछ कर अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। प्रकरण में अनुवर्ती कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार/घायल अभियुक्तों का विवरण:-

1. शाहिद पुत्र अनोखे शाह निवासी मेवापभ्रापुर थाना फरीदपुर जनपद बरेली (दौराने ईलाज मृत्यु) ।
2. बब्बू पुत्र झम्मनलाल निवासी जल्लालाड़पुर थाना भोजीपुरा जनपद बरेली (घायल) ।
3. पप्पी उर्फ साजिद पुत्र साबिर उर्फ बड़े निवासी जल्लालाड़पुर थाना भोजीपुरा जनपद बरेली ।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

1. मु०अ०सं० 992/2020 धारा 395 भादवि थाना इज्जतनगर जनपद बरेली।
2. मु०अ०सं० 995/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम पप्पी थाना इज्जतनगर जनपद बरेली।

बरामदगी का विवरण:-

1. 01 अदद तमंचा नाजायज 315 बोर
2. 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
3. मु0अ0सं0 992/2020 धारा 395 भादवि से सम्बन्धित सम्पूर्ण बरामदगी 900 रुपये
4. मु0अ0सं0 981/2020 धारा 380 भादवि व मु0अ0सं0 982/2020 धारा 392 भादवि से सम्बन्धित 01 जोड़ी सोने की झाले, 01 सोने की अंगूठी, 03 जोड़ी पजेब चांदी की, 02 जोड़ी बिछुए चांदी के एवं 2000 रुपये ।

आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 981/2020 धारा 380 भादवि थाना इज्जतनगर, बरेली।
2. मु0अ0सं0 982/2020 धारा 392 भादवि थाना इज्जतनगर, बरेली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. SHO कृष्ण कान्त वर्मा इज्जतनगर थाना इज्जतनगर, बरेली
2. उ0नि0 प्रवीण सिंह थाना इज्जतनगर, बरेली
3. उ0नि0 सुनील कुमार थाना इज्जतनगर, बरेली
4. का0 1454 सुधीर थाना इज्जतनगर, बरेली
5. का0 1880 अंकित थाना इज्जतनगर, बरेली
6. का0 1252 अजय कुमार थाना इज्जतनगर, बरेली
7. का0 1255 विक्रान्त थाना इज्जतनगर, बरेली
8. हो0गा0 742 पूरनलाल थाना इज्जतनगर, बरेली
9. हो0गा0 718 धर्मपाल थाना इज्जतनगर, बरेली

सोशल मीडिया सैल
जनपद बरेली ।

